

(मतदान कार्मिको के डेटाबेस के लिए प्रोफार्मा )

जनपद का नाम: \_\_\_\_\_

1. विभाग का नाम: \_\_\_\_\_

2. विभाग की परिस्थिति: \_\_\_\_\_ \*\*\*

3. कार्यालय का कोड एवं नाम: \_\_\_\_\_

4. लागू वेतन आयोग: \_\_\_\_\_

5. कार्यालय का पूरा पता: \_\_\_\_\_

6. कार्यालयाध्यक्ष का नाम: \_\_\_\_\_

7. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम: \_\_\_\_\_

8. टेलीफोन न० कार्यालय: \_\_\_\_\_ आवास \_\_\_\_\_ मोबाइल न० \_\_\_\_\_

9. ईमेल आईडी \_\_\_\_\_

**कार्यालय अध्यक्ष से सम्पर्क न हो पाने की स्थिति में वैकल्पिक अधिकारी का वववरण:-**

10. वैकल्पिक अधिकारी का नाम: \_\_\_\_\_

11. वैकल्पिक अधिकारी का पदनाम: \_\_\_\_\_

12. वैकल्पिक अधिकारी के कार्यालय का टेलीफोन न० \_\_\_\_\_ आवास \_\_\_\_\_ मोबाइल न० \_\_\_\_\_

13. कार्यालय में कार्यरत कुल अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या -

कुल संख्या \_\_\_\_\_ अधिकारियों की संख्या \_\_\_\_\_ अन्य कर्मचारी की संख्या \_\_\_\_\_

उपरोक्त क्रम संख्या 13 में,

14. महिलाओं की संख्या \_\_\_\_\_ पुरुषों की संख्या \_\_\_\_\_ दिव्यांग की संख्या \_\_\_\_\_

स्वीपर की संख्या \_\_\_\_\_ चौकीदार की संख्या \_\_\_\_\_ ड्राइवर की संख्या \_\_\_\_\_

BLO की संख्या \_\_\_\_\_

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

\*\*\*

Central Government

State Govt.

Central Government PSU

State Govt. PSUs

Central Government Educational Institutes

State Govt. Educational Institutes

Central Govt. Banks

State Govt. Banks

Insurance

### महत्वपूर्ण निर्देश

उपरोक्त सूचनाये ध्यान पूर्वक भरे क्योंकि फॉर्म -2/3 की सूचना ऑनलाइन भरने के पश्चात् कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा बिंदु-13 व बिंदु 14 का मिलान फॉर्म -2/3 में भरी गयी सूचना से किया जायेगा | यदि फॉर्म -1 में भरी गयी सूचना फॉर्म -2/3 में भरी गयी सूचना से भिन्न हुई तो फॉर्म -2/3 का डाटा प्रीज नहीं हो पायेगा |

**प्रपत्र - II**

**(केंद्र/ राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु)**

लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2019

विभाग का नाम : \_\_\_\_\_

कार्यालय का कोड : \_\_\_\_\_

कार्यालय का नाम: \_\_\_\_\_

कार्यालय का पता: \_\_\_\_\_

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यरत स्थल का नाम	मोबाइल न० (मोबाइल न० न होने की दशा में निवास फ़ोन या अन्य संपर्क)	लिंग पुरुष/ महिला	कर्मचारी का प्रकार (स्थायी/ अस्थायी/ संविदा) P/T/C	राजपत्रित (हां / नहीं )	श्रेणी (I, II, III या IV)	वर्तमान पे बैंड ( छठा वेतन आयोग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वर्तमान ग्रेड पे ( छठा वेतन आयोग)	पद की ग्रेड पे (छठा वेतन आयोग)	कुल सेवा अवधि (वर्ष में )	वर्तमान ग्रेड पे में कितने समय से कार्यरत (वर्ष में )	मूल वेतन (छठा वेतन आयोग)	लेवल नंबर (सातवाँ वेतन आयोग)	इंडेक्स नंबर (सातवाँ वेतन आयोग)
11	12	13	14	15	16	17

मूल वेतन (सातवाँ वेतन आयोग)	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में कार्यरत है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में निवास करता है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा का मूल निवासी हैं	गृह जनपद का नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक (31.5.2019 तक और पूर्व)	अध्यापक किस श्रेणी में आता है   T1 -प्राथमिक शिक्षक T2 -जूनियर हाई स्कूल शिक्षक T3 - हाई स्कूल शिक्षक T4 -इंटरमीडिएट शिक्षक T5 डिग्री कॉलेज

						T6 अन्य शिक्षक
18	19	20	21	22	23	24

क्या सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी पिछले 04 वर्षों में 03 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है ? (हां / नहीं )	अभियुक्ति (गर्भवती महिला ,दिव्यांग ,बी० एल० ओ० ,गम्भीर रूप से बीमार ,आवश्यक सेवा ,ड्राइवर , स्वीपर,बैंक गार्ड आदि )	अधिकारी / कर्मचारी के निर्वाचन नामावली (EPIC) पंजीकरण से सम्बंधित विवरण					
		EPIC (वोटर कार्ड) नंबर	EPIC विधान सभा क्षेत्र संख्या	EPIC विधान सभा क्षेत्र का नाम	बूथ संख्या	मतदाता क्रमांक	यदि EPIC वर्तमान तैनाती जनपद से निर्गत (हां / नहीं )
25	26	27	28	29	30	31	32

अधिकारी / कर्मचारी के बैंक अकाउंट का विवरण			
बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC
33	34	35	36

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(बैंक/बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिये)

लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2019

विभाग का नाम : \_\_\_\_\_

कार्यालय कोड : \_\_\_\_\_

कार्यालय का नाम: \_\_\_\_\_

कार्यालय का पता: \_\_\_\_\_

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्यस्थल का नाम	मोबाइल नंबर	लिंग (पुरुष/महिला)	कर्मचारी का प्रकार (P - स्थाई, T - अस्थायी, C - संविदा)	स्केल (I, II, III, IV, V, VI, VII, CS, SS) *CS-Clerical Staff *Subordinate Services (Peon Etc.)	पे स्केल	मूल वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में निवास में कार्यरत है करता है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा का मूल निवासी है	गृह जनपद का नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक (31.5.2019 तक और पूर्व)	क्या सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी पिछले 04 वर्षों में 03 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है ? (हां / नहीं)	अभियुक्ति (गर्भवती महिला दिव्यांग ,बी० एल० ओ० ,गर्भभीर रूप से बीमार ,आवश्यक सेवा ,डाइवर , बैंक गार्ड आदि )
11	12	13	14	15	16	17

अधिकारी / कर्मचारी के निर्वाचन नामावली (EPIC) पंजीकरण से सम्बंधित विवरण							अधिकारी / कर्मचारी के बैंक अकाउंट का विवरण			
EPIC (वोटर कार्ड) नंबर	EPIC विधान सभा क्षेत्र संख्या	EPIC विधान सभा क्षेत्र का नाम	बूथ संख्या	मतदाता क्रमांक	यदि EPIC वर्तमान तैनाती जनपद से निर्गत (नहीं / हाँ)	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

**लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 उत्तर प्रदेश  
कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रपत्र -1 भरने हेतु दिशा निर्देश**

प्रपत्र-1 सभी कार्यालयों को भरना है, यदि किसी कार्यालय को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो वो प्रभारी अधिकारी कार्मिक/एन0आई0सी0 कलक्ट्रेट से प्राप्त कर लें। प्रपत्र-1 के कुल 14 कालम हैं। सभी प्रविष्टियाँ हिंदी यूनिकोड में आनलाइन (ceo.up.gov.in) पोर्टल पर करनी होंगी। सर्वप्रथम आपको जनपद का नाम लिखना है।

कालम	दिशा निर्देश
1.	क्रम संख्या 1 पर आपको अपने विभाग का नाम लिखना है जिसमें आपका कार्यालय आता है। जैसे आपका कार्यालय जिला कृषि अधिकारी लखनऊ है तो आपका विभाग होगा कृषि विभाग। जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए विभाग होगा समाज कल्याण विभाग। यदि भारतीय स्टेट बैंक मुख्या शाखा लखनऊ है तो आपको अपने विभाग का नाम लिखना होगा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक गोहनलाल गंज लखनऊ को विभाग लिखना होगा पंजाब नेशनल बैंक। बीमा कम्पनियों को विभाग में लिखना होगा एंशुरेंस (बीमा)। केन्द्र सरकार के कार्यालयों को अपने विभाग के रूप अपने मंत्रालय अथवा विभाग का नाम लिखना होगा।
	विभागों की सूची तथा निर्वाचन से सम्बंधित अन्य जानकारी आपके जनपद की वेबसाइट पर लोक सभा 2019 Link के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है। कृपया विभागों की सूची का अवलोकन कर लें जिससे आपको अपने कार्यालय के लिए विभाग चुनने में आसानी होगी।
2.	क्रम संख्या 2 पर आपको अपने विभाग/कार्यालय की परिस्थिति लिखनी होगी जोकि प्रारूप -1 में उपलब्ध करायी गयी है।
3.	क्रम संख्या 3 में आपको अपने कार्यालय का कोड ( जोकि आपको भेजे गये पत्र में दर्शाया गया है) एवं कार्यालय का पूरा नाम लिखना है।
4.	क्रम संख्या 4 पर आपको कार्यालय में लागू वेतन आयोग का चयन करना होगा।
5.	क्रम संख्या 5 पर आपको कार्यालय का पूरा पता लिखना होगा जिससे कि आपको निर्वाचन सम्बन्धी कोई भी सूचना आसानी से उपलब्ध करायी जा सके।
6.	क्रम संख्या 6 पर कार्यालयाध्यक्ष का पूरा नाम लिखना होगा। इस नाम को प्रपत्र-2/3 में क्रम संख्या 1 पर सम्मिलित करना अनिवार्य है।
7.	क्रम संख्या 7 पर कार्यालयाध्यक्ष का पूरा पदनाम लिखें। जैसे अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता आदि।
8.	क्रम संख्या 8 पर दूरभाष संख्या कार्यालय एवं आवास एस.टी.डी कोड के साथ एचम कार्यालयाध्यक्ष का मोबाइल नम्बर भरें। जो मोबाइल नम्बर भरा जा रहा है उसे निर्वाचन की समाप्ति तक न बदला जाय। यदि बदला जाय तो इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी(कार्मिक) को देना अनिवार्य है।
9.	क्रम संख्या 9 पर कार्यालय का ईमेल पता भरना होगा। (यदि उपलब्ध है तो)
10, 11, 12.	क्रम संख्या 10,11,12 पर कार्यालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वैकल्पिक अधिकारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय, आवास का दूरभाष नम्बर एवं मोबाइल नम्बर भरें। वैकल्पिक अधिकारी का नाम प्रपत्र 2 अथवा 3 में क्रम संख्या 2 पर सम्मिलित करना अनिवार्य है।
13, 14.	क्रम संख्या 13, 14 पर आपको अपने कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूचना भरनी होगी। जैसे आपके कार्यालय में 4 अधिकारी 16 कर्मचारी (कार्यालयाध्यक्ष एवं वैकल्पिक अधिकारी सहित) एवं कार्यरत है तो आपको प्रपत्र -1 में दिये कालम इस प्रकार भरने होंगे। इसमें अस्थाई एवं संविदा के अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित किये जायेंगे।

कुल संख्या - 20	अधिकारियों की संख्या - 4	अन्य कर्मचारियों की संख्या - 16
यदि कुल 4 अधिकारी एवं 16 कर्मचारियों में 5 महिला अधिकारी/कर्मचारी है तो 15 पुरुष अधिकारी/कर्मचारी भरने होंगे। उपरोक्त 20 अधिकारी/कर्मचारियों में कुल अधिकारी/कर्मचारी दिव्यांग ( पूर्व में विकलांग) है तो उनकी संख्या भरें। स्त्रीपर, चौकीदार, ड्राइवर, BLO की संख्या भरें।		

प्रारूप-1 में भरी गयी सूचनाओं का मिलान सिस्टम द्वारा प्रारूप 2 अथवा 3 भरते समय चेक की जायेगी। जैसे आपके द्वारा 5 महिला कर्मचारी प्रारूप-1 में भरी गयी लेकिन प्रारूप-2 में आपके द्वारा 4 महिला कर्मचारी भरी जाती है तो सिस्टम प्रारूप 2 को फ्रीज नहीं करने देगा। इसी प्रकार शेष सूचनाओं ( कुल अधिकारी, कुल कर्मचारी, ड्राइवर, चौकीदार, दिव्यांग आदि) को चेक किया जायेगा, इसलिए प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2/3 को ध्यानपूर्वक पूरी सावधानी से भरा जाय। सूचनायें फीड करने का बाद इसका प्रिन्ट लेकर हार्ड कॉपी से मिलान करना अनिवार्य है।

प्रपत्र 1 भरकर तैयार होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) को स्वयं उपलब्ध कराना होगा। इसी बैठक में आपको प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रभारी अधिकारी कार्मिक द्वारा प्रपत्र -1 प्राप्त होने के बाद कार्यालयाध्यक्षों को एस.एम.एस के माध्यम से तथा विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से उनके कार्यालयों को उनके लागिण एवं पासवर्ड प्रपत्र -2 भरने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे।

## कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रपत्र - 2 भरने हेतु दिशा निर्देश

**प्रपत्र-2** राज्य सरकार के विभाग, केन्द्र सरकार के विभाग, भारत सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार निगम आदि द्वारा भरा जायेगा। प्रपत्र-2 के कुल 36 कालम हैं। सभी प्रविष्टियाँ हिंदी यूनिकोड में आनलाइन पोर्टल पर करनी होगी। प्रारूप-2 की प्रविष्टियाँ आनलाइन प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को अपने कार्यालय के सभी पदनामों की प्रविष्टि करनी होगी। कालमों में सूचनायें किस प्रकार भरी जाये इसके लिए दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं। विभाग के नाम में कार्यालय जिस विभाग से अन्तर्गत आता है उस विभाग का नाम भरा जायेगा। कार्यालय कोड ( जोकि आपको भेजे गये पत्र में दर्शाया गया है) एवं कार्यालय का पूरा नाम भरा जायेगा। कार्यालय का पता - कार्यालय का पूरा पता भरें।

कालम	दिशा निर्देश
1	क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करें। क्रम संख्या 1 पर कार्यालयाध्यक्ष का नाम जोकि प्रपत्र में 1 भरा गया है भरा जायेगा। क्रम संख्या 2 पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम जोकि प्रपत्र 1 में भरा गया है भरा जायेगा। इसके बाद शेष अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रविष्टी क्रम संख्या 3 से की जायेगी।
2	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम ( केवल सफाई कर्मियों के लिए इनके नाम के साथ कोष्टक में उनकी आई.डी भरें जिससे कि ड्यूटी वितरित करते समय कोई समस्या न हो) जैसे रामप्रकाश (3425)
3	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा पद नाम भरें। अवर अभियन्ता, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक आदि
4	जूनियर हाईस्कूल, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का डाटा फीड करते समय इस कालम में स्कूल का नाम लिखना होगा। सफाई कर्मियों के केस में किस विकास खण्ड में तैनात है उस विकास खण्ड का नाम भरें। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में अधिकारी/कर्मचारी मूल कार्यालय के अन्य तैनात है तो उसका विवरण भरें।
5	अधिकारी/कर्मचारी का गोबाइल नम्बर भरें। निर्वाचन की समाप्ति तक इस नम्बर को न बदला जाये। यदि बदला जाता है तो इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी कार्मिक को देनी होगी।
6,7,8	लिंग ( पुरुष अथवा महिला भरें)। अधिकारी/कर्मचारी स्टाई, अस्थाई या फिर संविदा पर है उल्लेख करें।(P/T/C), अधिकारी राजपत्रित (Gazetted) है या नहीं ( Y/N)
9	भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधिकारी /कर्मचारी किस श्रेणी में आते है उल्लेख करना है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी
10	वर्तमान पे बैंड PB1- ,PB2 ,PB3 , PB4 छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01.01.2019 को क्या है भरा जायेगा।
11	वर्तमान ग्रेड पे छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01.01.2019 को क्या है भरी जायेगी।
12	पद की ग्रेड छठवें वेतन आयोग के अनुसार ( यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी को ACP का लाभ देते हुए उच्च ग्रेड पे मिल रहा है लेकिन जिस पद पर वह कार्यरत है उसका ग्रेड पे क्या है उसे भरना होगा) जैसे किसी अवर अभियन्ता की नियुक्ति 4800 ग्रेड पे में वर्ष 2000 में होती है लेकिन उसकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता पद पर नहीं होती है लेकिन उसको सहायक अभियन्ता का ग्रेड पे 6600 वर्ष 2015 मिल जाता है लेकिन पद नाम अवर अभियन्ता ही रहता है तो उसको इस कालम में पद का ग्रेड पे 4800 भरना होगा।
13	कुल सेवा अवधि वर्ष में -अधिकारी/कर्मचारी को सेवा करते हुए 01.01.2019 को कितने वर्ष हो चुके है।
14	वर्तमान ग्रेड पे पर कितने समय से कार्यरत है 01.01.2019 तक वर्षों में भरें।
15	01.01.2019 को छठवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन कितना है
16,17, 18	यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो 01.01.2019 को लेवल नम्बर क्या है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो इन्डेक्स नम्बर क्या है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है सातवें वेतन आयोग के अनुसार 01.01.2019 को मूल वेतन कितना है
19	अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत है ( कार्यालय किस विधान सभा क्षेत्र में है) भरना होगा। विधान सभा क्षेत्रों की सूचना आपके जनपद की वेबसाइट पर लोक सभा 2019 Link के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है।
20,21,22	अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निवास करता है भरना होगा। अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र का मूल निवासी है भरना होगा। यदि जनपद के बाहर का है तो अन्य लिखना होगा। अधिकारी /कर्मचारी का ग्रह जनपद क्या है। उत्तर प्रदेश के बाहर निवासी है तो अन्य भरें।
23	31 मई 2019 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्ति का विवरण भरें।
24	अध्यापकों की प्रविष्टी करते समय इस कालम में प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक के लिए T1, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक के लिए T2, हाईस्कूल शिक्षक के लिए T3, इंटरमीडियेट शिक्षक के लिए T4, डिग्री कालेज शिक्षक लिए T5 एवं अन्य शिक्षकों के लिए T6 भरा जायेगा।
25	क्या अधिकारी /कर्मचारी पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है (Y/N)
26	अभियुक्ति ( गर्भवती महिला, प्रसूति अवकाश, दिव्यांग, बी.एल.ओ ड्यूटी, गम्भीर रूप से बीमार, ड्राइवर, स्वीपर, बैंक गार्ड आदि ) भरें। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा इसको निर्वाचन कार्य में व्यवधान समझा जायेगा।
27,28,29,30 ,31,32	अधिकारी/कर्मचारी का इपिक (वोटर कार्ड विवरण) भरना होगा। इपिक नम्बर क्या है किस विधान सभा क्षेत्र से इपिक जारी हुआ है उसका नम्बर एवं नाम, मतदेय स्थल (बूथ नम्बर) क्या है, वोटर लिस्ट में मतदाता क्रमांक क्या है। इपिक वर्तमान जनपद से जारी हुआ है या नहीं।
33,34,35,36	अधिकारी/कर्मचारी का बैंक खाता किस बैंक एवं किस ब्रान्च में है उसका विवरण भरें IFSC कोड के साथ भरें।
प्रपत्र 2 भरने के बाद इसका प्रिन्ट लेकर इसका मिलान मूल सूची से कर ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि डाटा में नहीं होनी चाहिए। डाटा फाइनल होने पर इसका प्रिन्ट लेकर इस पर फीडकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर, जांचकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर तथा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद अपने नोटल अधिकारी के माध्यम से डाटा का शुद्धता का प्रमाण लेकर प्रभारी अधिकारी कार्मिक को उपलब्ध करायेगे।	



### कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रपत्र - 3 भरने हेतु दिशा निर्देश

प्रपत्र -3 राज्य स्तरीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कम्पनी द्वारा भरा जायेगा। प्रपत्र-3 के कुल 27 कालम हैं। सभी प्रविष्टियाँ हिंदी युनिकोड में आनलाइन पोर्टल पर करनी होंगी। प्रारूप-3 की प्रविष्टियाँ आनलाइन प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को अपने कार्यालय के सभी पदनामों की प्रविष्टि करनी होगी। कालमों में सूचनाएं किता प्रकार भरी जाये इसके लिए दिशा निर्देश निम्न प्रकार है। विभाग के नाम में कार्यालय जिस विभाग के अन्तर्गत आता है उरा विभाग का नाम भरा जायेगा कार्यालय कोड ( जोकि आपको भेजे गये पत्र में दर्शाया गया है) एवं कार्यालय का पूरा नाम भरा जायेगा। कार्यालय का पता - कार्यालय का पूरा पता भरें।

कालम	दिशा निर्देश
1	क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करें। क्रम संख्या 1 पर कार्यालयाध्यक्ष का नाम जोकि प्रपत्र में 1 भरा गया है भरा जायेगा। क्रम संख्या 2 पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम जोकि प्रपत्र 1 में भरा गया है भरा जायेगा। इसके बाद शेष अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रविष्टि क्रम संख्या 3 से की जायेगी।
2	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम ( केवल सपाई कर्मियों के लिए इनके नाम के साथ कोष्टक में उनकी आई.डी भरें जिससे कि डब्युटी वितरित करते समय कोई समस्या न हो) जैसे रामप्रकाश (3425)
3	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा पद नाम भरें। मैनेजर, सहायक मैनेजर, कार्यालय सहायक आदि
4	विभागों में अधिकारी/कर्मचारी मूल कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर तैनात है तो उसका विवरण भरें।
5	अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल नम्बर भरें। निर्वाचन की समाप्ति तक इस नम्बर को न बदला जाये। यदि बदला जाता है तो इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी कार्मिक को देनी होगी।
6,7	लिंग ( पुरुष अथवा महिला भरें)। अधिकारी/कर्मचारी स्थाई, अस्थायी या फिर संविदा पर है उल्लेख करें।(P/T/C)
8	राज्य स्तरीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कम्पनी के अधिकारी /कर्मचारी किस श्रेणी में आते है उल्लेख करना है। Scale - I, II, III, IV,V,VI,VII, CC, SS CS - Clerical Staff SS- Subordinate Services (Peon etc)
9,10	Pay Scale, Basic Pay as on 01.01.2019
11,12,13,14	अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निवास करता है भरना होगा। अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र का मूल निवासी है भरना होगा।यदि जनपद के बाहर का है तो अन्य लिखना होगा। अधिकारी /कर्मचारी का ग्रह जनपद क्या है। उत्तर प्रदेश के बाहर निवासी है तो अन्य भरें।
15	31 मई 2019 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्ति का विवरण भरें।
16	क्या अधिकारी /कर्मचारी पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है (Y/N)
17	अभियुक्ति ( गर्भवती महिला, प्रसूति अवकाश, दिव्यांग, बी.एल.ओ डब्युटी, गम्भीर रूप से बीमार, ड्राइवर, स्वीपर, बैंक गार्ड आदि ) भरें। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा इसको निर्वाचन कार्य में व्यवधान समझा जायेगा।
18,19,20,21,22,23	अधिकारी/कर्मचारी का इपिक (वोटर कार्ड विवरण) भरना होगा। इपिक नम्बर क्या है किस विधान सभा क्षेत्र से इपिक जारी हुआ है उसका नम्बर एवं नाम, मतदेय स्थल (बूथ नम्बर) क्या है, वोटर लिस्ट में गतदाता क्रमांक क्या है। इपिक वर्तमान जनपद से जारी हुआ है या नहीं।
24,25,26,27	अधिकारी/कर्मचारी का बैंक खाता किस बैंक एवं किता ब्रान्च में है उसका विवरण भरें IFSC कोड के साथ भरें।

प्रपत्र 3 भरने के बाद इसका प्रिन्ट लेकर इसका मिलान मूल सूची से कर ले। किसी भी प्रकार की छुट्टि डाटा में नहीं होनी चाहिए। डाटा फाइनल होने पर इसका प्रिन्ट लेकर इस पर फीडबैक का नाम एवं हस्ताक्षर, जांचकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर तथा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से डाटा का शुद्धता का प्रमाण लेकर प्रभारी अधिकारी कार्मिक को उपलब्ध करायेगे।